

**रा-ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**हॉस्टल/ HOSTEL**

कार्ड संख्या/ **CARD NO.** \_\_\_\_\_ पुरानी कार्ड संख्या/ **PREVIOUS CARD NO.** \_\_\_\_\_ एडवांस/ **ADVANCE** रु./ **Rs.** \_\_\_\_\_

पिछला एडवांस रु./**Rs.**

**ADVANCE B/F**

नाम/ <b>NAME (CAPITAL LETTERS)</b> _____ पद/ <b>DESIGNATION:</b> _____ पता: कार्यालय/ <b>ADDRESS: OFF</b> _____ ( <b>CAPITAL LETTERS</b> ) _____ फोन नं./ <b>PHONE NO.</b> _____	निवास स्थान/तत्काल सम्पर्क के लिए पता <b>(RESIDENTIAL OR IMMEDIATE CONTACT ADDRESS)</b> _____ _____ फोन नं./ <b>PHONE NO.</b> _____
--	---

कमरा नं./**ROOM NO.** \_\_\_\_\_ कमरे का टाइप/**TYPE OF ROOM** \_\_\_\_\_ यात्रा का उद्देश्य/**PURPOSE OF JOURNEY** \_\_\_\_\_

आगमन तिथि/**DATE IN** \_\_\_\_\_ समय/**TIME** \_\_\_\_\_ प्रस्थान तिथि/**DATE OUT** \_\_\_\_\_ समय/**TIME** \_\_\_\_\_

निवासी के हस्ताक्षर/**SIGNATURE OF INMATE** \_\_\_\_\_

मैस प्रभार/ <b>MESS CHARGES</b>	संख्या <b>NO.</b>	दर <b>RATE</b>	राशि/ <b>AMOUNT</b>
			रु./ <b>RS.</b> पै./ <b>P.</b>
ब्रेक फास्ट/ <b>BREAKFAST</b>			
लंच/ <b>LUNCH</b>			
डिनर/ <b>DINNER</b>			
चाय/ <b>TEA</b>			
दूध/ <b>MILK</b>			
चिकन/ <b>CHICKEN/N.V.</b>			
विविध/अतिरिक्त/ <b>MISC./EXTRA</b>			
<b>योग/SUB-TOTAL</b>			
<b>किराया/RENT FOR</b>	<b>दिन/DAYS</b>		
<b>कुल योग/GRAND TOTAL</b>			
<b>एडवांस/ADVANCE</b>			
<b>शे-1/BALANCE</b>			

कैस मेमो नं./ **CASH MEMO NO.** \_\_\_\_\_

तिथि/ **DATED:** \_\_\_\_\_

मेस रिकार्ड/ MESS RECORD

मास/ MONTH \_\_\_\_\_ वर्ष/ YEAR \_\_\_\_\_

तिथि/ DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	योग/ TOTAL				Milk	N.V.	MISC.	
																BF	L	D	Tea				
ब्रेक फास्ट/BREAKFAST																							
लंच/LUNCH																							
डिनर/DINNER																							
प्रातःकालीन चाय/BED TEA																							
सांय कालीन चाय/EVENING TEA																							
दूध/MILK																							
चिकन/CHICKEN/NON-VEG.																							
विविध/अतिरिक्त/MISC./EXTRA																							

तिथि/ DATE	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	योग/ TOTAL				Milk	N.V.	MISC.
																	BF	L	D	Tea			
ब्रेक फास्ट/BREAKFAST																							
लंच/LUNCH																							
डिनर/DINNER																							
प्रातःकालीन चाय/BED TEA																							
सांय कालीन चाय/EVENING TEA																							
दूध/MILK																							
चिकन/CHICKEN/NON-VEG.																							
विविध/अतिरिक्त/MISC./EXTRA																							

कुल योग /Grand Total

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लेखा-जोखा सही है।/Certified that the above account is correct.

निवासी के हस्ताक्षर (Signature of inmate)

हॉस्टल वार्डन (Hostel Warden)

प्रभारी अधिकारी (Officer in-charge)